



भारत सरकार

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

राज्य इकाई : गुजरात ,गांधीनगर



## हिंदी कार्यशाला , दिनांक 28 मार्च 2019

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण राज्य इकाई: गुजरात, गांधीनगर में दिनांक 28 मार्च 2019 , को एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्री एन वी नितनवरे, उपमहानिदेशक भा.भू.स, राज्य इकाई: गुजरात, गांधीनगर ने हिंदी कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने हिन्दी भाषा के मूल्यों पर बल देते हुए उसके उत्थान हेतु एकजुट होकर काम करने के लिए सभी को प्रेरित किया। गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद के हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष डा.रामगोपाल सिंह इस कार्यशाला के मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित थे। उन्होंने “सरकारी कामकाज के निष्पादन में राजभाषा का व्यावहारिक उपयोग” विषय पर विस्तृत व्याख्यान देते हुए कार्यालय में राजभाषा नीति नियम के अधीन सहज ढंग से हिंदी में कार्य करने के विभिन्न तरीके एवं उनकी अनिवार्यता के बारे में बताया | इसके अतिरिक्त उन्होंने केंद्र सरकार की हिंदी प्रशिक्षण योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कार्यालय में उसकी उपयोगिता पर चर्चा की तथा नई चेतना का संचार किया। श्री जी एस अग्रवाल निदेशक ने राज्य इकाई: गुजरात में हिंदी में हो रहे कार्यों की सराहना करते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों से हिन्दी में और अधिक पत्राचार करने के लिये प्रोत्साहित किया। श्री ललित कुमार ठाकुर, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक एवं प्रभारी अधिकारी (राजभाषा) ने अतिथियों का अभिवादन किया तथा अपने रोचक व्याख्यान से सभी प्रतिभागियों को हिंदी में और अधिक कार्य करने एवं राजभाषा के प्रचार- प्रसार हेतु संकल्प लेने पर बल दिया। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि हिंदी कार्यशाला से सभी लाभान्वित होंगे एवं अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करना और अधिक सरल हो जाएगा। अंत में श्री एस.बी.सोनार ने अतिथियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापन कर समारोह का समापन किया।

## हिंदी कार्यशाला की झलकियां

